

श्री पियूष श्रीवास्तव, भारतीय राजदूत, बहरीन का भाषण
विश्व हिंदी दिवस -2023

[मंगलवार ; 10 जनवरी 2023; 0900 प्रातःकाल; स्थान - इंडियन स्कूल]

श्री मुहम्मद कुर्शिद आलम, कार्यकारी समिति के सदस्य, शिक्षाविद, दी इंडियन स्कूल

श्री वी आर पलानिस्वामी , प्रधान अध्यापक, दी इंडियन स्कूल

यहाँ उपस्थित सभी इंडियन स्कूलों के प्रतिनिधिगण, अध्यापकगण और छात्र - छात्राओं को मेरा नमस्कार एवं विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आज यहां आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत गर्व और खुशी का आभास हो रहा है ।
2. सर्व प्रथम मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभ कामनाएं देना चाहूंगा।
3. आज जब हम लोग यहां विश्व हिंदी दिवस पर सम्मिलित हुए हैं, इंदौर, मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मलेन चल रहा है । जैसे के आप सबको विदित है, प्रवासी भारतीय दिवस दो वर्ष में एक बार होता है। यह भारत सरकार का प्रवासी भाई - बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण event है। इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस और भी ज़्यादा important है, क्यों की चार साल के अंतराल में पहली बार यह physical format में हो रहा है। आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें बहरीन से सौ लोगों के strong delegation ने participate किया है ।

साथियों ,

4. हिंदी भारत की राजभाषा है। यह भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है । हिंदी न सिर्फ भारत की, अपितु विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में एक है। हिंदी 1948 से, UNESCO की official language है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2019 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र समाचार की एक हिंदी वेबसाइट और वर्ष 2018 में हिंदी साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया जो विश्व में हिंदी के महत्व को दर्शाता है। आज विश्व के लगभग 73 देशों एवं 300 सस्थानों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है।

5. पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 में नागपुर में मनाया गया था और देश-विदेश से कई जाने-माने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था लेकिन इस यह वार्षिक प्रथा की शुरुआत 2006 से हुई। और तबसे हर साल आज के दिन यह विश्व भर में मनाया जाता है।

6. माननीय नरेंद्र मोदीजी ने विश्व हिंदी दिवस पर अपने सन्देश में हिंदी के महत्व का वर्णन किया है। मैं उनके संदेश की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा।

"आज़ादी के अमृत काल में देश पंचप्राणों में शामिल, " विरासत पर गर्व " और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के भाव के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारा देश अनेक भाषाओं व संस्कृतियों की जननी है और यह समृद्ध विरासत हमें सतत प्रेरणा देती है। इसी प्रकार, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए आपसी संवाद और परस्पर समन्वय को सशक्त करने में अमृतकाल में भारतीय भाषाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहनेवाली है। हिंदी की प्रगति, हमारे राष्ट्र के मूल्यों के प्रसार के साथ-साथ विश्व बंधुत्व के भाव से भी जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विशेष पहचान और भारतवंशियों को एकता के सूत्र में पिरोने में हिंदी एक मजबूत कड़ी है। "

प्रिय छात्र – छात्राओं,

7. यह अत्यंत हर्ष का विषय है की हिंदी का प्रचार - प्रसार विदेशों में भी बढ़ रहा है। इसमें हमारे भारतीय समुदाय के लोगों के भागीदारी की एक एहम भूमिका है। हिंदी एक समृद्ध और विविध भाषा है। आज हिंदी का प्रयोग केवल साहित्य की पारंपरिक विधाओं में ही नहीं, बल्कि उसका प्रयोग हर विषय जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, समाजशास्त्र, वाणिज्य, प्रबंधन आदि में भी बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। सोशल-मीडिया इस्तेमाल में भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है।

8. बहरीन में भी हमने हिंदी से जुड़े कई कार्यक्रम किये हैं। बहरीन वासियों के लिए हिंदी अनजान भाषा नहीं है। हमारे कई Bahraini मित्र हिंदी बोलते और समझते हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में बहरीन के बिजनेसमैन Mr. Nabeel Ajoor ने हिंदी में स्पीच दी थी, जिसकी अत्यंत सराहना हुई है।

9. मेरा यह मानना है की कोई भी भाषा तब तक सशक्त नहीं हो सकती , तब तक युवा वर्ग उसे अपने जीवन का हिस्सा न बनाये । इसमें आप सबका योगदान ज़रूरी है । आप सबसे अपेक्षा है, आप हिंदी का उपयोग यथा संभव करें । आज इतनी संख्या में आप सबकी उपस्थिति आपकी हिंदी के प्रति रूचि दर्शाता है । आप सभी को प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए और राजभाषा का अधिकाधिक प्रचार करने के लिए बधाई देना चाहूँगा। यह देखकर मुझे और भी विश्वास हो चला है कि हिंदी का भविष्य उज्वल है ।

10. विश्व हिंदी दिवस को सफल बनाने के लिए मैं इंडियन स्कूल प्रबंधन, आयोजकों, सभी स्कूलों के समन्वयकों, अध्यापक और अध्यपिकाओं को बधाई देता हूँ । मैं सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूँ । आप सबका योगदान हिंदी भाषा के लिए सराहनीय है।

11. एक बार पुनः विजेता छात्र, छात्राओं को बधाई देते हुए, मैं आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

धन्यवाद
